

**ख़ास बात**  
जिनमें कोई गुण नहीं होता वे ही बहुत बकवास करते हैं।  
-विविध

॥ श्री हरिः ॥

# अमृत दर्शन

RNI No. MPHIN /2004 /13927

वर्ष - 21 अंक - 68

नर्मदापुरम  
शनिवार, 21 दिसंबर 2024

● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 1 रुपया

Website : www.amritdarshan.com

## नर्मदापुरम का प्रथम हिन्दी दैनिक

### संक्षिप्त समाचार

#### ट्रक की टक्कर से एलपीजी टैंकर में धमाका, 11 लोग जिंदा जले

जयपुर। भांकरोटा थाना इलाके में जयपुर-अजमेर हाइवे स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने शुक्रवार सुबह करीब दोपहर 11 बजे एलपीजी टैंकर में हुए धमाके से 11 लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गई। हादसे में 53 से अधिक लोगों को गंभीर हालत में एएसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना भयानक था कि उसने करीब चालीस से अधिक वाहनों को चपेट में ले लिया, इसमें एक स्लीपर बस भी शामिल है, जो टैंकर के पीछे चल रही थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमर्जी गाड़ियां घटनास्थल और उसके आसपास पास के इलाके में आग बुझाती रही।

एएसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना भयानक था कि उसने करीब चालीस से अधिक वाहनों को चपेट में ले लिया, इसमें एक स्लीपर बस भी शामिल है, जो टैंकर के पीछे चल रही थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमर्जी गाड़ियां घटनास्थल और उसके आसपास पास के इलाके में आग बुझाती रही।

#### मुंबई एयरपोर्ट पर 11.32 करोड़ की ड्रग बरामद, दो गिरफ्तार



मुंबई। नाकोटिक्स कंट्रोल थ्रूरो (एनसीबी) की टीम ने गुरुवार रात मुंबई एयरपोर्ट पर 11.32 करोड़ रुपये की ड्रग के साथ बैकबैक से आए दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। दोनों यात्रियों ने बरामद ड्रग्स को वैक्यूम-सील प्लास्टिक पाउच में छिपाकर टॉली गेट के अंदर रखा था। इस मामले की गहन छानबीन एनसीबी की टीम कर रही है। एनसीबी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग सहित यात्री के आने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर गुरुवार रात मुंबई एयरपोर्ट पर एनसीबी की टीम निगरानी कर रही थी। उनकी टीम ने बैकबैक से आए दो संधिध यात्रियों को रोका और उनके सामान की तलाशी। दोनों ने अपने सामान के अंदर 11.322 किलोग्राम ड्रग प्लास्टिक पाउच में छिपा कर रखा था, जिसे एनसीबी ने बरामद कर लिया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों से गहन पूछताछ जारी है।

### विकास को दर्शाता है प्रदेश में म्यूचुअल फंड सेक्टर में सवा लाख करोड़ का निवेश

## सोलर ऊर्जा से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के हो रहे प्रयास : सीएम डॉ. यादव

इंदौर ● ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न सेक्टरों के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 68 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रदेश में म्यूचुअल फंड में सवा लाख करोड़ रुपये का निवेश है, जो यहां हुए विकास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री व्हील्स के 2 दिवसीय निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में ये बातें कहीं।



#### युवाओं के कौशल विकास में बनाएंगे आत्मनिर्भर: यादव

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए समरस, समावेशी संविधान निर्माता भीमराव अडेकर को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दूरदृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी, समरस समाज की राह दिखा दी है। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जरूरत के मुताबिक और नए संकल्प खोले जाएंगे। जनवरी माह में राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलमुरुओं की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाने का सीएम ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास और स्पष्ट दिशा देने के साथ ही विविध की आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मंडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है।

सीएम ने कहा नदी जोड़ें अभियान में प्रदेश में 2 नदी जोड़ें अभियान पर विशेष

#### सीएम आज उज्जैन आईटी पार्क का करेंगे भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन आईटी पार्क का भूमिपूजन 21 दिसंबर को करेंगे। कार्यक्रम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदौर रोड में आयोजित होगा। इस अवसर पर कौशल विकास एवं रोजगार व उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल और जनाप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उज्जैन आईटी पार्क लगभग 46 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा है। आईटी पार्क स्थापित होने से क्षेत्र में आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम सेक्टर में निवेश के नए आयाम स्थापित होंगे और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। आईटी पार्क का विस्तार 2.16 हेक्टेयर भूमि पर होगा। पार्क की इमारत महाकाल की अनन्त की अवधारणा पर डिजाइन की जाएगी और 5 चरणों में इसका निर्माण होगा।

रूप से कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से प्रदेश में वर्तमान सिंचाई का रकबा 45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर एक करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा।

### लोकसभा से एक देश एक चुनाव विधेयक को जेपीसी को भेजा गया

## हंगामे की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली ● एजेन्सी

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई थी। पहले अदाणी मामले, फिर जॉर्ज सोरोस और इसके बाद अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ। इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ा। इस सत्र में राज्यसभा में केवल 40.03 फीसदी ही काम हुआ। जबकि लोकसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है लोकसभा में भी महज 57.87 फीसदी काम हुआ।



#### दोनों सदन में काम ही हुआ कामकाज

राज्यसभा में शुक्रवार को एक देश एक चुनाव विधेयक के लिए बन रही जेपीसी में राज्यसभा के 12 सांसदों को नामित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह जब राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरेगे के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिना किसी हंगामे के सदन चलाने के लिए कहा। जब सदन की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई तो सभापति ने विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर बन रही जेपीसी के लिए उच्च सदन से सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव रखने के लिए कहा। जेपीसी के लिए 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद अपने समापन भाषण

में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस सत्र में 40.03 फीसदी ही काम हुआ। पूरे सत्र में 43 घंटा 27 मिनट काम हो सका। उन्होंने कहा कि सांसद के तौर पर देश के लोग हमारी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। यह सही भी है क्योंकि लगातार हो रहे व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को लगातार कम कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बयान को लेकर रहे हंगामे के बीच लोकसभा से शुक्रवार को एक देश

एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश करने को कहा। हंगामे के बीच प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

### हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन

गुरुग्राम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनलो सुप्रिमी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। शुक्रवार को वे गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जिसके बाद साढ़े 11 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल समेत बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया

### कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे भागवत

## हर दिन मंदिर-मस्जिद विवाद उठाया जा रहा, ये सही नहीं

पुणे ● एजेन्सी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर-मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।



भागवत ने कहा- ये स्वीकार नहीं पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में भारत विश्वगुरु पर व्याख्यान देते हुए भागवत ने ये बातें कहीं। उन्होंने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बिना कहा, 'हर दिन एक नया मामला (विवाद) उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का

पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालतों में पहुंची हैं।' हालांकि, भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। भागवत बोले- राम मंदिर इसलिए बना, क्योंकि वो आस्था से जुड़ा था भारतीय समाज की बहुलता पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं, तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था।

### मेंडोरी के जंगल में कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ नगद बरामद



भोपाल ● प्रतिनिधि

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते तीन दिन से अगल-अलग कारोबारियों के यहां लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापे के बाद अब यहां मेंडोरी के जंगल में एक गाड़ी में 52 किलो सोना बरामद हुआ। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये नकद भी मिले हैं। सोने की कीमत 40 करोड़ 47 लाख रुपये आंकी गई है। गुरुवार की दरमियानी रात दो बजे 30 गाड़ियों में पहुंची आयकर विभाग और पुलिस की टीम ने वाहन को पकड़ा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सोना और नकद राशि किसकी है। जिस कार इनोवा क्रिस्टा में यह सोना और नकदी मिली है, वह ग्वालियर की है और चंदन गौर के नाम से रजिस्टर्ड है। चंदन गौर का जुड़ाव पूर्व परिवहन के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से बताया जा रहा है।

दरअसल, सौरभ शर्मा के कार्यालय और आवास पर गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने छापे मारा था। पुलिस को दोनों जगह से दो करोड़ 85 लाख रुपये नकद, 50 लाख रुपये के गहने और दो करोड़ रुपये की अन्य संपत्ति की जानकारी मिली थी। सौरभ शर्मा एक पूर्व मंत्री सहित कई अधिकारियों और नेताओं के करीबी बताए जाते हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, एक खुफिया जानकारी मिली थी कि जंगल में एक कार खड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में पैसे रखे हैं। इसके बाद आयकर विभाग की टीम गुरुवार को रात करीब दो बजे मेंडोरी के जंगल में पहुंची, जहां इनोवा कार के पास पहले से करीब 100 पुलिसकर्मी और 30 गाड़ियां थीं। संभवतः पुलिस को भी इसके बारे में सूचना मिली होगी। कार पूरी तरह से लॉक थी। ऐसे में आयकर विभाग की टीम ने साथ पहुंचे गनमैन की गन के बट से कार का कांच तोड़ा और गेट खोलकर बैग निकाले गए। इन बैग में भारी मात्रा में नकदी और सोना मिला।

## अंतर्ना

### उवाच

एक तेरा होना - सबका होना है, पर मेरा ना होना - सिर्फ मेरा ना होना है..!

जब भक्त समस्याओं से घिर जाता है, या किसी मुसीबत में फंस जाता है, स्थिति- परिस्थिति जब प्रतिकूल हो जाती है, जब सहयोगियों के द्वार बंद हो जाते हैं, सगे संबंधी, इष्ट मित्र भी रूठ जाते हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक द्वार ही नजर आता है, एक ही सबल दिखाई देता है, जो सबका मालिक है, सुख दुःख में सबका साथ देता है, सबका सहारा बनता है, विकट संकटों से निकलने के लिये भक्ता उसी से गुहार लगाता है, उसी को अन्तर्मन से पुकारता है। द्रवित मन से, दुखी मन से - की गई गुहार, अन्तर्मन की प्रार्थना बनकर, भक्त और भगवान के बीच के फासले को मिटा देती है और भक्त - भगवान के बीच वातावरण शुरू हो जाता है।

जब मन की गहराइयों से या शांत और समर्पित भाव और अन्तरात्मा से जो कुछ निकलता है, वो डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंच जाता है। जब कभी कुछ कहने की आवश्यकता पड़े तो ये प्रार्थना पर्याप्त है - हे परमात्मा, मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, विवेक-बुद्धि, सद्ज्ञान का उजास हो और आपके अर्पित सुख की प्राप्ति हो। उनसे क्या मांगू - आप से मांग लेता हूँ. आप से क्या मांगू - आपकी ही मांग लेता हूँ..!!!

■ अंतर्ना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज

## क्या आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है?

**बैंक से सम्पर्क करें**

**बैंक खाता सक्रिय करने के लिए अपना केवाईसी अपडेट करवाएँ।**

दो वर्षों से अधिक समय से बैंक खाते में लेनदेन न होने पर वो निष्क्रिय हो जाता है।

अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर या वीडियो केवाईसी के द्वारा अपना केवाईसी अपडेट करवाएँ।

अधिक जानकारी के लिए, 14440 पर मिस्ड कॉल दें या <https://rbikehtahai.rbi.org.in/ia> पर जाएं

फ्रीडबैक देने के लिए, [rbikehtahai@rbi.org.in](mailto:rbikehtahai@rbi.org.in) को लिखें

जनहित में जारी **भारतीय रिज़र्व बैंक**  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

भोपाल में आईएस सर्विस मीट का शुभारंभ, सीएम बोले

## कर्म तो सब करते हैं, भाग्य परमात्मा देता है

भोपाल ■ विल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रशासन अकादमी भोपाल में आईएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट 2024 के तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कर्म तो सब लोग करते हैं, भाग्य परमात्मा देता है। आपने इस मार्ग पर चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। इसलिए मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में यदि



आईएस अधिकारियों की संख्या देखी जाए तो नगण्य है। सीएम मोहन ने अपने सम्बोधन में कहा कि इतने बड़े देश की इतनी विविधता और चुनौतियों के बीच, हमारे देश की

21 दिसंबर को बोट रेस से  
शुरुआत

सुबह सर्विस मीट की शुरुआत बोट रेस से होगी। इसके बाद टी20 फुटबॉल, कुश्ती कॉम्पिटिशन, टी5 क्रिकेट, फन गेम, पेंटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पूल, कैरम, बिलियर्ड्स, क्रिक और अंतर्राष्ट्रीय का आयोजन किया जाएगा। अगले वक्रे में ही डीजे नाइट होगी।

दुनिया में जो पहचान बनी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आईएस अधिकारियों की है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। इस कार्यक्रम के माध्यम से

22 दिसंबर को होंगे ये  
कार्यक्रम

सुबह साइविलिंग के बाद अगले वक्रे में टंग आफ वॉर, क्रिज, डम शिराज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पूल, बिलियर्ड्स, क्रिक का आयोजन किया जाएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सर्विस मीट का समापन होगा।

मुख्यमंत्री ने आम जनता के द्वारा उनको मुख्यमंत्री बनाने का मोका देने के लिए आभार भी प्रकट किया।

वह चाय वाले को पता था: सीएम ने कहा कि पढ़े-लिखे होने के



भोपाल। भोपाल में जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में शुक्रवार को अखिल भारतीय दिग्गमर जैन युवक-युवती परिषद की स्मारिका विमोचन किया गया।

## संक्षिप्त समाचार

## भेल कर्मचारियों की मांगों को लेकर सीटू का ज्ञापन

भोपाल। सीटू यूनियन के महासचिव दीपक गुप्ता के नेतृत्व में बीएचईएल के कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने अपने अधिकारों को लेकर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) बी के सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं। यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यूनियन को मजबूरन बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और ठेका श्रमिकों के अधिकारों के लिए सीटू किसी भी हद तक जा सकती है। ज्ञापन में मुख्य रूप से यूनियन ने नई भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने, अनुकूपा नियुक्ति की व्यवस्था को पुनः लागू करने, रात्रि कालीन भते में वृद्धि और ठेका श्रमिकों के वेतन को केंद्रीय स्तर का करने की मांग सहित कर्मचारियों के अन्य लंबित मुद्दों पर भी ध्यान देने की अपील की गई। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष लोकेन्द्र शेखावत, कोषाध्यक्ष शाहिद अली, राजेश राजक, नरेश जादवी, अरविंद राज और विनय सिंह सहित कई कर्मचारी शामिल थे।

## नये साल पर सुरक्षा को लेकर एवशन मोड में पुलिस

भोपाल। नये साल के आगमन के दौरान इन दिनों राजधानी पुलिस आदतन बढमाशो, नशा तस्करो के खिलाफ एवशन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में शहर में शांति, सुरक्षा बनाये रखने के लिये न्यायालय पुलिस आयुक्त द्वारा 10 आदतन अपराधियों को शहर से हटाकर करने के लिये जिला बंदर के आदेश दिये गये है। जिला बंदर किये जाने वाले बढमाशो में विशाल राघु पिता भवान सिंह (32), शुभम चौहान पिता राजमल चौहान (22) दोनो निवासी थाना शाहपुरा, रोहित सांवर उर्फ बंटी उर्फ कन्द्री पिता नाभेर सांवर (28), गोविंद शर्मा उर्फ बच्चा पिता पदम प्रसाद (29) दोनो निवासी, थाना टीटीनगर, परवेज पिता प्यार मिश्रा (39) निवासी, थाना हनुमानगंज, पप्पू उर्फ राज राठीर पिता स्व. संजु राठीर (19) निवासी, थाना श्यामलाहिल्स, मनु उर्फ मनोज पिता लक्ष्मी नारायण (45) निवासी थाना पिपलानी, जयसिंह तोमर उर्फ चमन तोमर पिता चन्द्रसिंह (22) निवासी, थाना शाहपुरा, गौरव कुचबर्दिया (सौदा) पिता सरवन कुचबर्दिया (26) निवासी, थाना तलेया, दिलीप पडोलिया पिता पन्नालाल पडोलिया (36) निवासी, थाना निशातपुरा के नाम शामिल है। अफसरों का कहना है कि जिला बंदर किये गये बढमाशो के खिलाफ शहर के अनेक थानों में हत्या, बलाकार, मारपीट, चोरी, छेड़छाड़, शराब तस्करी एवं आर्मस् एक्ट समेत अनेक मामलों दर्ज होकर न्यायालय में विचारधीन है। समय-समय पर चलाये गये विशेष अभियान के दौरान अनेक खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। लेकिन बढमाश लगातार अपराधिक वारदातों में लिस रहे जिसके चलते उनके खिलाफ जिला बंदर की कार्यवाही की गई है।

## नकल रोकने कलेक्टर गठित करेंगे उड़नदस्ता

भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की 10वीं-12वीं की परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए माशिम ने अपनी व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब हरेक जिले में कलेक्टर ही पलाइंग स्काड गठित करेंगे। इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग अपने स्तर पर पलाइंग स्काड (उड़न दस्ता) गठित करता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। अलग-अलग दल के बढते केंद्रीयकृत व्यवस्था रहेगी। इस बार प्रदेश भर में करीब 550 खतद-गशील परीक्षा केंद्र हैं। हर जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या के हिसाब से कलेक्टर जो दल गठित करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग माशिम करेगा। इसके तहत टीन लीजर को माशिम द्वारा तैयार किए गए एप में रजिस्टर करना होगा। इसके माध्यम से उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। माशिम के सर्वर में यह जानकारी रहेगी कि कौन सा दल किस परीक्षा केंद्र में गया है।

## एसजीएसयू में कौशल विकास और गांधी दर्शन पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल ■ विल

स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनियन (एसजीएसयू) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में कौशल विकास की भारतीय चेतना और गांधी दर्शन विषय पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन एसजीएसयू के वनमाली सभागार में किया गया। इस अवसर पर वतौर मुख्य अतिथि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक विनीत चामो, विशिष्ट अतिथि तुमुल सोलल फंडामेंटल डेवलपमेंट सोसायटी के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान एवं अतिथि आईसेन्ट के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास प्रबंधक कुंकेश शर्मा मौजूद रहे। साथ ही



कार्यक्रम के अन्य अतिथियों में स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनियन के कुलगुरु डॉ. अजय भूषण, कुलसचिव डॉ. सितेश कुमार सिन्हा, डीन ह्यूमनिटीज संकाय डॉ. टीना प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

इस दौरान मुख्य वक्ता विनीत चामो ने बताया कि गांधी जी के दर्शन पर बात करते हुए बताया कि खादी ग्रामोद्योग विभाग उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है।

## मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की प्रस्तुतियों के साथ बाल रंग का रंगारंग उद्घाटन बरेदी बैगा, गौर, ठीमरयाई, गणगौर, तथा गायकी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां हुईं

भोपाल ■ विल

स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बाल रंग समारोह का रंगारंग उद्घाटन हुआ, आज प्रथम दिवस राज्य स्तरीय साहित्यिक संस्कृत योग, मद्रस्ता निश्कतजन, लोक नृत्य एवं गायन वादन की प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। आज प्रथम दिवस प्रातः संचालक लोक शिक्षण डी एस कुशवाहा ने निदेशक इंद्रिया गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय प्रोफेसर अमिताभ पांडे के द्वारा बाल रंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, प्रथम दिवस मध्य प्रदेश के 9 संभागों से आए हुए संभाग स्तरीय दलों ने अपने-अपने संभाग के कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में लोक नृत्य की बहुत आकर्षक प्रस्तुत दी भारत की सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश में बरेदी बैगा, गौर, ठीमरयाई, गणगौर, तथा गायकी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां हुईं, आज प्रथम दिवस मुख्य मंच पर समूचे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक छत्र देखते ही बनती थी, स्कूल बच्चों ने पूरे मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक छत्र देखते ही बनती थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना साकार किया। इसके साथ मद्रस्ता प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के इतिहास की कव्याली प्रस्तुत की गई



## आई आई ए फागुन बाहर की प्रस्तुति ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया

संस्कृत प्रतियोगिताओं में वेद पाठ संस्कृत नाटिका की प्रस्तुतियां हुईं स्कूली बच्चों ने मधुर स्वर में एक साथ वेद पाठ प्रस्तुत किया इसके साथ-साथ कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतल पर उज्जैन संभाग द्वारा आकर्षक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई साहित्यिक प्रतियोगिता में वाद विवाद देश भक्ति आधारित काव्य पाठ निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में गायन और वादन की प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं जयलपुर की छात्रा अशिका सोनी ने वितार पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, इसके साथ-साथ भोपाल संभाग के छात्र रूपम ने एखावज पर तीन ताल की प्रस्तुति दी, गायन प्रतियोगिता में भोपाल संभाग की बालिकाओं द्वारा आकर्षक मालवी गीत आई आई ए के फागुन बाहर की प्रस्तुति ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया।

बालिकाओं ने लय ताल और सुर में कव्याली का मुकामला हुआ। भोपाल संभाग की बालिकाओं ने कव्याली में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके साथ-साथ निश्कतजन जन प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने कविता पाठ नृत्य और आकर्षक चित्रकला की पेंटिंग बनाई, इस प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त

किया। आज मुख्य मंच पर सभी नौ संभाग के कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग की लोक नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं मध्य प्रदेश के सभी अंचल मालवा अंचल बुंदेलखंड अंचल बघेलखंड निमाड मध्य भारत एवं महाकौशल, के लोक नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं। इसके साथ-साथ विकसित भारत को दर्शाती भारत के सभी राज्यों की झांकी जो विकसित भारत

2047 के लक्ष्य को रेखांकित करती हुई जिसमें सभी राज्यों के उभरते हुए नवाचार उनके उत्पाद इसके साथ-साथ उनकी औद्योगिक गतिशीलता को दर्शाया गया है जो लघु भारत के माध्यम से दर्शाया गया है, इस वर्ष विजन 2047 को लेकर एक नवाचार किया गया है जिसमें भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम भारत की औद्योगिक प्रगति भारत में जैविक कृषि मिशन एवं स्वच्छ पद्धति पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लक्ष्यों को लेकर अलग-अलग स्टैल द्वारा भारत की प्रगति को दर्शाया गया है।

इस वर्ष बाल रंग में एक नवाचार किया गया है इसमें स्कूली विद्यार्थियों द्वारा स्वनिर्मित हस्तशिल्प के उत्पादों की एक प्रदर्शनी तैजस्वी मध्य प्रदेश के बैनर तले लगाई गई है जिसमें भोपाल के शासकीय से स्कूली छात्राओं द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए, आज प्रथम दिवस भोपाल के सभी दर्शकों ने इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चियों के द्वारा तैयार बहुत कम कीमत पर तैयार उत्पाद को खरीदने में उत्साह दिखाया। भारत स्काउट गाइड द्वारा एक तीन दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया जिसमें स्काउट के नियमों की एवं साहसिक गतिविधियों को दर्शाया गया है।

## 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के पात्र नहीं मप्र के छात्र

## विद्यालक्ष्मी योजना की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे मप्र के अधिकांश कॉलेज

भोपाल ■ विल

केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य कम आय वाले छात्रों के उच्च शिक्षा के सपने को साकार करना है। इसके तहत, छात्रों को बिना गारंटर के 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा जिससे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का अवसर मिल सके।

योजना के तहत पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। लेकिन मप्र के अधिकांश संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को बिना गारंटी शैक्षणिक ऋण नहीं मिल पाएगा।



जानकारी के अनुसार पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मप्र के अधिकतर जरूरतमंद विद्यार्थियों को फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके विश्वविद्यालय या कॉलेज इस योजना को प्राथमिक शर्त को ही पूरा नहीं कर रहे हैं। इस योजना की पहली शर्त है कि विद्यार्थी जिस संस्थान में पढ़ाई कर रहा है वह एनआईआरएफ में शामिल हो। इस रैंकिंग में देश भर के 850 शिक्षा और शोध संस्थान शामिल हैं। लेकिन इस सूची में राज्य विश्वविद्यालयों में केवल इंदौर का देवी अरविण्या विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं दो निजी

विश्वविद्यालय एलएनएसटी और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का नाम इस रैंकिंग में शामिल है। भोपाल के एक उच्च उच्च शिक्षा संस्थान को भी कॉलेजों की रैंकिंग सूची में जगह मिल पाई है। इनकी रैंकिंग भी 101 से 200 के बीच के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों की सूची में है। बताया जा रहा है कि सूची में नहीं रहने को बड़ी वजह मानकों को पूरा नहीं करना है। मानकों को बजह से प्रदेश के अधिकतर शिक्षा संस्थानों ने इस रैंकिंग के लिए अपना पंजीयन तक नहीं कराया है। इसी पंजीयन के आधार पर शिक्षा मंत्रालय की टीम संस्थानों का निरीक्षण कर रैंकिंग की सिफारिश करती है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर कॉलेज एनआईआरएफ के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते हैं।

## निशुल्क नेत्र शिविर में 900 मरीजों की जांच, 310 ऑपरेशन

भोपाल। मां आशापुरा दरबार भोपाल ने आदर्श सिंधु समाज में आयोजित किए गए अपने 40वें निशुल्क नेत्र शिविर में 900 से अधिक मरीजों की जांच की जांच की और 310 मरीजों के मोतिवालिन के सफल ऑपरेशन किए। इस पूरी सेवा की व्यवस्था मां आशापुरा दरबार ने निशुल्क की थी, जिसमें निरायु चैरिटेबल हॉस्पिटल की टीम के अलावा, डॉ. एमके अजवानी और डॉ. मधु चंचलानी ने भी मरीजों का ऑपरेशन किया। शिविर का शुभारंभ 15 दिसंबर को गीता माताजी की उपस्थिति में हुआ, जिसमें भोपाल के सांसद अलोक शर्मा ने उद्घाटन किया। शिविर का समापन गुरुवार को मेयर मारती राय के हार्थो हुआ, जिन्होंने समापन के अवसर पर मरीजों को कंबल वितरित कर उन्हें विदाई दी। शिविर में देशभर से मरीज इलाज कराने पहुंचे हैं, जिसमें से कई लोगों ने पहले भी इस शिविर से लाभ लिया था और अब वे अपने परिवार और मित्रों को भी इलाज के लिए यहां बुलाते हैं।

## फिटजी कोचिंग के संचालक समेत 4 के खिलाफ धोखाधड़ी की दूसरी एफआईआर दर्ज

डेढ़ करोड़ से अधिक फीस वसूल कर चंपत हुए है आरोपी

भोपाल ■ विल

देश के अनेक शहरों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्वॉइंट एंट्रेंस एजाम (जेईई) की तैयारी कराने वाली दिल्ली की फिटजी कोचिंग की भोपाल ब्रांच के संचालक सहित 4 लोगों के खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में तीन दिन के भीतर धोखाधड़ी की दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में अब तक फिटजी कोचिंग द्वारा यहाँ पहुंचे वाले स्टूडेंट्स से करीब डेढ़ करोड़ की फीस बटोरकर चंपत होने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में थाना पुलिस ने पहली एफआईआर 16 दिसंबर को दर्ज करते हुए फिटजी के चेयरमैन डीके गोयल, सीईओ मनीष आनंद, सीएफओ राजीव बख्तर और सुमित श्रीवास्तव को आरोपी बनाया था। अब उनके खिलाफ एशबाग स्थित ओरेंटल सुभाष नगर में रहने वाले आशीष वेश्य पिता केसी वेश्य (57) ने शिकायत दर्ज कराई है। आशीष वेश्य ने अपनी शिकायत में बताया कि वह रिलायंस कंपनी में नौकरी करते हैं। अपने परिवार के एक बच्चे का उन्होंने फिटजी कोचिंग में एडमिशन कराते हुए मोठे रकम दी थी, लेकिन बीते दिनों वह पढ़ाई बंद हो गई और बाद में कोचिंग पर ताला लग गया। कोचिंग संचालक द्वारा की गई गड़बड़ की मीडिया द्वारा दी गई खबरों को पढ़ने के बाद वह थाने पहुंचे हैं। पुलिस ने कोचिंग के एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने फिटजी के चेयरमैन डीके



## इंदौर में भी हो चुकी है शिकायत

गौतमबंद है ही पूर्व में प्रदेश के इंदौर में भी जेईई परीक्षा की तैयारी कराने वाली फिटजी कोचिंग के खिलाफ यहाँ पहुंचे वाले स्टूडेंट्स के परिजनो ने कलेक्टर से पेशी तरह की शिकायत कर चुके हैं। इंदौर में फिटजी के तीन कोचिंग सेंटरों में पहुंचने वाले करीब 200 से अधिक स्टूडेंट्स से लड़कों की फीस कसूली के बाद फेकटरी की समस्या को लेकर कोचिंग सेंटरों को अज्ञान बंध कर दिया गया। जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार कई टीवर्स सेलेरी न मिलने पर नौकरी छोड़ चुके हैं।

गोयल, सीईओ मनीष आनंद, सीएफओ राजीव बख्तर और सुमित श्रीवास्तव के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। जानकारी के अनुसार फिटजी की भोपाल ब्रांच में करीब 700 स्टूडेंट्स के एडमिशन हैं। हर स्टूडेंट डेढ़ से 3 लाख की फीस ली जाती है। बीते शनिवार को फिटजी कोचिंग के दो दर्जन से अधिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों ने इसे लेकर हंगामा करते हुए एमपी नगर थाने में शिकायत की थी।

## गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में घोर लापरवाही सीएजी की रिपोर्ट में खुली प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल

भोपाल ■ विल

प्रदेश में सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में घोर लापरवाही बरती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में हो रही लापरवाही के कारण नवजात बच्चों की मौत हो रही है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के घुरे हाल सामने आए हैं। वर्ष 2017 से 2022 के बीच प्रदेश में 32 लाख 30 हजार गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टाक्सोइड (टीटी2) का टीका नहीं लगा। यह संख्या इस अवधि में पंजीकृत कुल गर्भवती की 34 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप नवजातों में टिटनेस के 240 मामले सामने आए। रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रसवपूर्व देखभाल के लिए इन पांच वर्षों में पंजीकृत 93 लाख 88 हजार गर्भवती महिलाओं का पंजीयन नहीं, पर इनमें 68 प्रतिशत महिलाएं ही पहली तिमाही



## सीजेरियन प्रसव की सुविधा ही नहीं

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्षों में 93,88,000 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हुआ। लेकिन 21,85,000 महिलाओं की प्रसव पूर्व चारों जांचें नहीं हुईं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि 20 में से 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीजेरियन प्रसव की सुविधा ही नहीं है। वहीं एक हजार में से 41 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत तक कम अस्पताल हैं। 2022 की अनुमानित जनसंख्या के मापदंड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 604 होने चाहिए पर 355 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1257 और उच्च स्वास्थ्य केंद्र 10 हजार 225 हैं।

में पंजीकृत हुईं। इसी प्रकार 21 लाख 85 हजार महिलाओं की प्रसव पूर्व चारों जांचें नहीं हुईं।

## हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के रोक अदालत ने कहा- 3 हफ्ते में नियम सुधारें राज्य सरकार, 6000 पद भरे जाने हैं

भोपाल ■ विल

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाईस्कूल शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुजरात को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा, जब तक राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के नियम नहीं सुधार लेती, तब तक हाईस्कूल शिक्षकों के बचे हुए पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। अदालत ने सरकार को नियम सुधारने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी है। इसके बाद ही मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें, हाईस्कूल शिक्षकों के 18 हजार में से 6 हजारों पदों पर भर्तियां होना बाकी है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो उम्मीदवारों की पात्रता के लिए सैकेड डिवीजन की बजाय उनके मावर्स को आधार

## भर्ती प्रक्रिया इसलिए विवादों में आई

दरअसल, हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के सैकेड डिवीजन काटेरिआ को लेकर बड़ा विरोधाभास था। शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सैकेड डिवीजन मानकर भर्ती किया है, जिनके ग्रेजुएशन में मावर्स 45 से 50 प्रतिशत के अंदर है। दूसरी तरफ ऐसे कई उम्मीदवार हैं, जिन्हें बर्ड डिवीजन मानकर भर्ती नहीं किया गया है, जबकि ग्रेजुएशन में उनके भी मावर्स 45 से 50 प्रतिशत के बीच थे।

बनाए। नेशनल कार्डिअल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों के मुताबिक, उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन में सैकेड डिवीजन तय की गई थी, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 45 से 50 प्रतिशत अंक लाने वालों को सैकेड डिवीजन, तो कई यूनिवर्सिटी थर्ड डिवीजन मानती हैं।

## सांक्षिप्त समाचार

## चांदतारा देवी जावंधिया का 74 वर्ष की आय में निधन

पिपरिया । समाजसेवी व्यवसायी जयनारायण, प्रदीप जावंधिया की भाभीजी, माहेश्वरी सभा प्रदेश सदस्य अनिल जावंधिया, माहेश्वरी सेवा मंडल कार्यकारिणी सदस्य इरीश जावंधिया की माताजी, रिया, अश्वत की दादीजी, ओमप्रकाश, डॉ. राजेश, प्रशांत, सुशील, प्रदीप, राकेश, प्रमोद, विवेक की चाचीजी, अमोल, सौरभ, शुभम की बड़ी माम्मी चांदतारा देवी जावंधिया पत्नी स्व. चंद्रगोपाल जावंधिया उम्र 74 वर्ष का निधन हुआ। अंतिम यात्रा निज निवास आनंद बाग कॉलोनी पिपरिया से 21 दिसंबर को प्रातः 11:00 बजे निकलेगी।

## फर्जी अनुबंध पर जमीन बेचने का बनाया दबाव

ग्वालियर । ग्वालियर में अलग-अलग तरीके से लोगों के साथ ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही एक ठगी के मामले में पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर फर्जी पांच टगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों फर्जी अनुबंध के आधार पर महिला पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहे थे। जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने पहुंचकर की थी, उसी शिकायत और जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी अभी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मुरार थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय ने बताया कि कल्पना नगर मुरार निवासी प्रीति गर्ग ने शिकायत की थी। बताया था कि उसकी सुनारपुरा में 6 बीघा 10 बिस्वा जमीन है।

## नाइजीरियन युवकों से कनाडा के वीजा के नाम पर ठगी

ग्वालियर । ग्वालियर में एक टग द्वारा नाइजीरिया के तीन युवकों को कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर ठगने का मामला सामने आया है। ठग ने युवकों से 20 हजार रुपए का ऑनलाइन फेमेंट कराते हुए उन्हें वीजा लेने ग्वालियर बुला लिया। यहां पहुंचकर जब युवकों ने कॉल किया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर इंतजार करने के बाद पीड़ित युवक पुलिस के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। टग का नंबर ट्रैक करने पर वह पंजाब का निकला। खुद के साथ ट्रैक ठगी की जानकारी मिलने के बाद युवक वापस गुजरात लौट गए। पीड़ित युवकों ने बताया कि वे पढ़ाई करने के लिए नाइजीरिया से अहमदाबाद (गुजरात) आए हैं। उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाना था। इसलिए वह ऑनलाइन वीजा के लिए गुलाब पर सर्व कर रहे थे। इस दौरान उन्हें आरोपी का नंबर मिला था।

## एमपी में नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को हटाया

जबलपुर । मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को पद से हटा दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने ये कार्रवाई की है। दरअसल, गुरुवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने बहुवचिंत नर्सिंग कॉलेज फर्जीबाई मामले को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर आदेश का पालन करते हुए नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को पद से हटाया जाए।

## मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान शिविर ग्राम पंचायत थरड़पुरा में आयोजित

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान शिविर ग्राम पंचायत थरड़पुरा में आयोजित हुआ, जिसमें सहकारिता विभाग की संस्था भगवानपुरा द्वारा केसीसी पशुपालन योजना में 09 सदस्यों को ऋण वितरण कर प्रमाण वितरण किए गए। संस्था प्रबंधक गौतम लाडू द्वारा बताया गया कि सहकारिता विभाग द्वारा कृषि भूमि पर शून्य प्रतिशत पर केसीसी ऋण, पशु पालन हेतु केसीसी पशुपालन ऋण, मत्स्य पालन हेतु केसीसी मत्स्य पालन ऋण प्रदाय किया जा रहा है। सहकारिता विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र के सभी भूमिधारी सदस्यों को शून्य प्रतिशत पर योजनाओं का लाभ दिलवाया जा सके।



शिविर की में भारती अवासे, जनपद सीईओ सर, तहसीलदार महोदय, सरपंच रेलेश के साथ सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी और ग्राम के निवासी उपस्थित थे। जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त कर समस्या का निराकरण किया गया। आज के कार्यक्रम में सीईओ पवन शाह जी तहसीलदार महोदय स्वास्थ्य विभाग पीएचई विभाग नोडल अधिकारी महेश पाटीदार जी सचिन होसी लाल राठौर रोजगार सहायक परशुराम जी उपस्थित थे।

## जीजा-साले ने तलवार से काटा पत्नी के प्रेमी का गला, आरोपी गिरफ्तार

जिले की बिलकिसगंज पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कल्ल का खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग हत्या का कारण बना, जिसमें जीजा-साले ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी शिव नारायण और धर्मेश को गिरफ्तार कर लिया है।

बिलकिसगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जहां एक व्यक्ति का शव खेत की मेड़ पर पड़ा मिला, जिसका किसी धारदार हथियार से गला काटा गया था। प्रेम प्रसंग के चलते की हत्या: मृतक की पहचान रूप सिंह पिता फूलसिंह (25) निवासी ग्राम हिनीती के रूप में हुई थी। पुलिस को ग्राम हिनीती और उसके आसपास पृच्छाछ करने पर पता चला कि रूप सिंह का गांव की ही एक महिला से प्रेमप्रसंग चल रहा था। इसी कारण रूपसिंह का महिला के पति शिव

## सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कमिश्नर ने सिवनी मालवा का किया दौरा

## बढ़ते अतिक्रमण को हटाने, रैन बसेरा बनाने, अलाव जलाने के लिए निर्देशित किया

सिवनी मालवा ■ विसं

सुशासन सप्ताह अंतर्गत प्रशासन आपके ग्राम थीम पर नर्मदापुरम आयुक्त के.जी.तिवारी ने गुरुवार को सिवनी मालवा नगर सहित ग्रामीण अंचल का दौरा किया। इस दौरान आयुक्त ने बानापुरा में लगाए गए मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर का निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने शासन द्वारा चलाए जा रही जनहितकारी योजनाओं और आमजन की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। शिविर में 46 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई। शिविर में कुछ महिलाओं ने कमिश्नर को बताया कि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं अभी तक उसके हमें पट्टे नहीं दिए गए जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। जिस पर कमिश्नर ने एसडीएम सरोज सिंह परिहार, सीएमओ और तहसीलदार को निर्देश दिए की सभी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए। इस दौरान आयुक्त को बताया गया कि शहर की कुछ कालोनीयों में राजस्व विभाग ने रिकार्ड में शासन अंकित कर दिया है। जिससे वहा रह रहे लोगों को अपनी संपत्ति विक्रय आदि कार्यों में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कालोनीवासी तहसील के चक्कर लगा कर परेशान हैं। जिस पर आयुक्त श्री तिवारी ने कहा कि प्रशासन से भी गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने एसडीएम सिवनी मालवा को निर्देशित किया कि इसे शीघ्र दुरुस्त किया



## आयुक्त ने रैन बसेरा और जलाएं जा रहे अलाव की जगह देखने को कहा

इसके उपरंत आयुक्त श्री तिवारी ने सीएमओ शीतल भलावी से कहा कि नगर पालिका द्वारा सिवनी मालवा में रैन बसेरा कहा चल रहा है और कड़कड़ती ठंड में नगर में कहीं-कहीं अलाव जलाए जा रहे हैं। मुझे ते चलकर दिखाए। जिस पर आयुक्त नगर की ओर बढ़े तो उन्हें ना तो कहीं अलाव जलाने की जगह दिखाई गई और ना कहीं रैन बसेरा का बैनर लगा पाया गया। जिस पर उन्होंने नगरजी व्यवत करते हुए कहा कि क्या नगर में नगर पालिका रात में आने जाने वाले मुसाफिरो के लिए रैन बसेरा नहीं बना सकती। शीघ्र शहर के प्रमुख दो-तीन स्थानों पर रैन बसेरा बनाया जाए और विधिवत उसके सामने नाम अंकित किया जाए कि यहां रैन बसेरा है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि शहर के प्रमुख स्थल जयधर्म चौक, गांधी चौक, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि प्रमुख स्थानों पर अलाव जलवाए जाए।

जाए। आयुक्त ने वार्डों में लगाए जा रहे शिविरों से पूर्व सुशासन सप्ताह, प्रशासन आपके द्वार थीम का 1 दिन पहले अनाउंस, फ्लेक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के सीएमओ को निर्देश दिए।

कुछ लोगों ने कहा कि रैन बसेरा बस स्टैंड के ऊपर चल रहा है। जिस पर आयुक्त ने नगरजी व्यवत करते हुए कहा कि ऐसा कैसे रैन बसेरा है। जिसका कोई बोर्ड ही नहीं लगा है। व्यवस्थित तरीके से रैन बसेरा चलाया जाए। उसमें गर्म पानी की व्यवस्था, हीटर, कंबल, रजाई, गादी

## एसडीएम को नगर का अतिक्रमण हटाने को कहा

आयुक्त जब नगर में आए तो उन्होंने शहर में भयंकर अतिक्रमण और अव्यवस्थित नगर को देखकर नाराजगी व्यक्त की और एसडीएम, सीएमओ और नगराध्यक्ष रितेश जैन से कहा की शीघ्र ही शहर का अतिक्रमण हटाया जाए। व्यवस्थित बाजार किए जाएं और दोबारा कोई अतिक्रमण नहीं करें इसकी भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने एसडीएम श्रीमती परिहार को निर्देशित किया कि राजस्व, नगर पालिका और पुलिस के साथ शहर को व्यवस्थित किया जाए।

आदि को सुचारु व्यवस्था को जाए। वहीं नागरिकों ने आयुक्त को बताया कि शहर में कहीं भी अलाव नहीं जल रहे हैं। जिस पर नगर पालिका सीएमओ शीतल भलावी और राजस्व निरीक्षक अमर सिंह उड़के आयुक्त को मोबाइल में जलते हुए अलाव की फोटो दिखाने लगे। इस पर आयुक्त ने कहा कि इतने लोग शहर के अगर बोल रहे हैं तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं। व्यवस्थित तरीके से अलाव जलाएं जाए। आयोग के.जी.तिवारी ने एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ से कहा की आप हम सब मानव है और मानवीयता के आधार पर ठंड के इस मौसम में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि ऐसे स्थान पर जहां लोगों को ओढ़ने बिछाने का कोई साधन न हो। उन्हें रात में जाकर कंबल बांट, जनप्रतिनिधियों को भी ले जाए।

## साल की सबसे लंबी रात आज

## दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर सूर्य होगा ठीक मकर रेखा पर

सोहागपुर ■ विसं

आज सूर्य अपनी छः माह की दक्षिण 2 यात्रा का समापन करने जा रहा है। इसके बाद इसकी वापसी उत्तर की ओर यात्रा आरंभ होगी। बिटर सोलस्ट्रिक की इस खगोलीय घटना की जानकारी देते हुये सोहागपुर निवासी नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका चारु ने बताया कि सूर्य किरणें आज (21 दिसम्बर) भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर मकर रेखा पर लंबवत होने जा रही हैं। इसके बाद सूर्य की कर्क रेखा की ओर उत्तरायण यात्रा आरंभ होगी। उत्तरायण यात्रा आरंभ होने की दिनांक को देखते हुये भारत के सहप्रायोजन में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 21 दिसम्बर को विश्वव्यापन दिवस या वर्ल्ड मेंडिटेरेशन डे घोषित किया है। इस खगोलीय घटना के कारण उत्तरी गोलार्ध के शहरो में आज दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होगी।



सारिका ने बताया कि विगत छः माह से उत्तरी गोलार्ध में अब तक सूर्य दक्षिण दिशा में जाता महसूस हो रहा था। अब यह उत्तर की ओर जाना आरंभ करेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज दोपहर 2 बजकर 50 मिनट के बाद सूर्य का

उत्तरायण आरंभ हो जायेगा। सारिका ने बताया कि बिटर सोलस्ट्रिक की यह खगोलीय घटना 20, 21, 22 या 23 दिसम्बर को हो सकती है। लेकिन 20 या 23 दिसम्बर को यह कम ही होती है। दिन रहेगा छोटो पल लंबी।

## लोकार्पण के बाद भी बिल्डिंग पर ताला लटका

सोहोर। शासकीय जिला अस्पताल परिसर में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण को दो माह बीत चुके हैं, लेकिन यहां मरीजों का उपचार शुरू नहीं हुआ। लोकार्पण से से ही भवन में ताले लगे हैं और नई बिल्डिंग अभी तक अस्पताल प्रबंधन को हेंडओवर नहीं की गई है। जिला चिकित्सालय में 150 बेड की नई बिल्डिंग 31 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से तैयार की गयी थी। जिसमें 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर यूनिट की हैं। 15 अक्च्यूबर को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर, सोहोर विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिय राठीर भवन का लोकार्पण किया गया। आनन-फानन में भवन का लोकार्पण तो कर दिया गया लेकिन दो माह बाद भी यहां अस्पताल प्रारंभ नहीं हो सका है।

## बुदनी पुलिस ने किया लूट का खुलासा 4 आरोपी गिरफ्तार



बुदनी। बुदनी के मिडघाट पर कुछ दिन पूर्व गाडी रोककर कट्टा अडाकर अज्ञात लोगों ने एक लूट को अंजाम दिया था जिसमें बुदनी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर टीम गठित कर लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से सोने की चैन नगद एवं कार सहित लगभग साढ़े पांच लाख रूपये का मशरूका जप्त किया। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी।

## बस स्टैंड परिसर के नाले में गिरा ट्रैक्टर छतिग्रस्त, क्रैन से निकाला



## खुले नाले में पहले भी घट चुकी घटनाएं

सोहागपुर ■ विसं

नगर के बस स्टैंड परिसर में स्थित खुले नाले में शुक्रवार को फुरतला के एक किसान का ट्रैक्टर गिरने का मामला सामने आया जिसे क्रैन की सहायता से बाहर निकाला गया। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर फुरतला के एक किसान का ट्रैक्टर उसका चालक लेकर आया और बस स्टैंड परिसर में खुले नाले तरफ खड़े करके नास्ता करने होटल चला गया। ट्रैक्टर न्यूज था जो बाहनों की आवाजाही के क्रमन में अपने आप चलकर नाले में जा गिरा। ट्रैक्टर बुरी तरह छतिग्रस्त हो गया

इतना ही नहीं अगला पहिया ट्रैक्टर नाले में गिर गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि घटना के वक्त ट्रैक्टर पर कोई सवार नहीं था और न ही आसपास कोई मौजूद था। नाले में गिरे ट्रैक्टर को देखने वालों का ताता लग गया।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर परिषद द्वारा निर्मित बगीर बाउंड्री वाले इस खुले नाले में इसके पूर्व भी बाहान, एशु व मानव के घिरने की घटना घटित हो चुकी है। बस स्टैंड से जुड़े रहने वालों की माने तो इसके पूर्व एक आटो, एक गीवंश और नशे की हालत में एक व्यक्ति भी इस नाले में गिर चुके हैं हालांकि इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ था।

## शोभापुर में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ



सोहागपुर ■ विसं

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत आज ग्राम शोभापुर में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया जिसका श्री तेजदीप सिंह शासन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सोहागपुर एवं संजय अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहागपुर तथा श्रीमती माया दीवान शाह सरपंच ग्राम पंचायत शोभापुर द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अभियान के तहत शामिल सभी योजनाओं को कानून की जानकारी संजय अग्रवाल मुख्य

कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा दी गई। शासन व्यवहार न्यायाधीश द्वारा जनता से जुड़े कानूनों की जानकारी देकर इसी शिविर के साथ-साथ विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित हुए और ग्राम के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। शिविर में विभिन्न विभागों के 72 आवेदन प्राप्त हुए जिनका निराकरण सभी संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र करके संबंधितों को सूचित किया जाएगा और स्वीकृति आदेशों का वितरण भी किया जाएगा।

## आनंद मेला एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया

सोहागपुर ■ विसं

पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय सोहागपुर में आज आनंद मेला एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे (जिला न्यायाधीश) महाविद्यालय शासी निकाय अध्यक्ष कैलाश पालीवाल, महाविद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष कन्नुलाल अग्रवाल, सचिव हमीर सिंह चंदेल, शिक्षा समिति अध्यक्ष कन्नुलाल अग्रवाल, प्राचार्य एन के नीखार, शेर खान (अध्यक्ष अधिवक्ता संघ), पूनम टाकूर (जिला विधिक जामरुकता अधिकारी), एन.एस.एस. अधिकारी एस.टाकूर, भानु तिवारी, संजय तिवारी अभिलाष सिंह चंदेल, जय भानु सिंह चंदेल, शिव कुमार पटेल, ललित शर्मा, शंकर लाल मालवीय आदि अधिवक्ताओं

की उपस्थिति में सभी छात्र-छात्राओं को कानून संबंधी जानकारी दी गई जिसमें बाल शोषण, ट्रेफिक नियम, साइबर क्राइम, दुर्घटना बीमा क्लेम एवं छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी दी गई। न्यायाधीश द्वारा बताया गया यदि किसी बच्चे या महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसे कहां किस तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराना है। स्व.डॉ.अरविंद सिंह चौहान साइब के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित आनंद मेले में शामिल होकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया एवं स्व.स्वा. अधिकारी एस.टाकूर, भानु तिवारी, संजय तिवारी अभिलाष सिंह चंदेल, जय भानु सिंह चंदेल, शिव कुमार पटेल, ललित शर्मा, शंकर लाल मालवीय आदि अधिवक्ताओं

## क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा हत्या का तरीका

## 22 दिसंबर को माझी महासम्मेलन में जुटेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता बंधु



नारायण से वाद विवाद भी हुआ था। शंका होने पर टीम ने शिवनारायण की तलाश कर उससे सख्ती से पृच्छाछ की। उसने बताया कि उसकी शादी 2013 में ग्राम हिनीती की महिला से हुई थी। शादी के कुछ साल उसे पता चला कि पत्नी का ग्राम हिनीती के ही रूपसिंह से

प्रेम प्रसंग था। उसने बताया कि मैंने अपनी पत्नी को रूपसिंह से मिलने से मना किया तो वह मान गई थी। क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा हत्या करने का तरीका: इसके बावजूद रूप सिंह उसकी गैर मौजूदगी में घर के आसपास आता जाता रहता था। इसके बारे में उसने अपने साले धर्मेश को बताया तो दोनों ने रूपसिंह की हत्या करने का योजना बनाई। आरोपी ने बताया कि उसने सावधान शंडिया और क्राइम पेट्रोल टीवी को देखकर हत्या करने का तरीका सिखा।

आरोपी ने बताया कि वह 18 दिसंबर की रात को अपनी बिना नंबर की बाइक से घर से तलवार लेकर निकाला। योजना के मुताबिक साला धर्मेश मुझे रातीबड़ में मिला। इसके बाद दोनों रूपसिंह के खेत के पास पहुंचे। तलवार से गला काटकर हूए फरार: इसके बाद दोनों उसके सोने का इंतजार करने लगे। इसके बाद रूपसिंह जैसे ही सोने के लिए अपने खेत के पास गया तो तलवार से उसके रिर पर वार किया। तलवार की मामूली चोट से वह जग गया।





## बेर के सेवन से पाएं कई सेहत समस्याओं से निजात

‘बेर’ खास और खटटा-मीठा फल है। यह फल खाने में जितना अच्छा लगता है, इसके फायदे भी उतने ही होते हैं। यदि आप टंड में बेर का सेवन करते हैं तो इस मौसम में होने वाली सेहत समस्याओं और अन्य कई समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। आइए, जानते हैं बेर फल को खाने से मिलने वाले फायदे -

- यदि आपकी त्वचा पर कट लगा हो या घाव हो जाए तो आप बेर का गुदा घिसकर घाव पर लगा लें। ऐसा करने से घाव जल्दी भरता है।
- बेर का सेवन खुशकी और थकान को दूरने में मदद करता है।
- बेर की पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, प्रचुर मात्रा में होता है। यदि आप बेर और नीम के पत्ते पीसकर सिर में लगाएं तो इससे सिर के बाल गिरने कम होते हैं।
- बेर का जूस पीने से बुखार और फेफड़े संबंधी रोग ठीक होते हैं।
- बेर पर नमक और काली मिर्च लगाकर खाने से अपच की समस्या दूर होती है।
- सूखे हुए बेर खाने से कब्ज और पेट संबंधित परेशानियां दूर होती हैं।
- अगर आप बेर को छाछ के साथ लेंगे तो इससे घबराहट, उलटी आना और पेट दर्द से राहत मिलती है।
- नियमित बेर खाने से अस्थमा के रोगियों को भी आराम मिलता है साथ ही अगर किसी को मसूड़ों में घाव हो गया हो तो वह भी जल्दी भर जाता है।



## टमाटर सूप है बेहद फायदेमंद

लाल लाल स्वादिष्ट टमाटर कई सब्जियों व डिश का अहम हिस्सा होते हैं। कच्चे टमाटर के अलावा उनका सूप भी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आमतौर पर खाने से पहले स्टार्टर के तौर पर लिए जाने वाले टमाटर सूप में विटामिन A, E, C, K और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो आपको हेल्दी और फिट रखने में मदद करते हैं। टमाटर सूप पीने से सेहत को मिलने वाले गजब के फायदे -

### हड्डियों के लिए फायदेमंद

टमाटर सूप में विटामिन K और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा शरीर में लाइकोपीन की कमी होने से भी हड्डियों पर तनाव बढ़ता है और टमाटर में काफी मात्रा में लाइकोपीन होता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है।

### दिमाग को रखें दुरुस्त

टमाटर सूप में भरपूर मात्रा में कॉपर और पोटेशियम पाया जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम ठीक रहता है और दिमाग को मजबूती मिलती है।

### विटामिन की कमी करे पूरी

टमाटर सूप में विटामिन A और C अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन D, टिश्यू के विकास के लिए जरूरी होता है। कहते हैं कि शरीर में रोजाना 16% विटामिन A और 20% विटामिन C की जरूरत होती है और टमाटर सूप इसकी जरूरत को पूरा करता है।

### वजन करे कम

टमाटर सूप को अगर ऑलिव ऑयल से बनाया जाए तो यह वजन घटाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे आपको काफी समय तक भूख नहीं लगती।

### कैंसर का खतरा करे कम

टमाटर सूप में लाइकोपीन और कैरोटिनॉयड जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे कैंसर की आशंका कम हो जाती है।

### ब्लड शुगर को करे नियंत्रण

डायबिटीज के मरीजों को डाइट में टमाटर सूप जरूर लेना चाहिए। इसमें क्रोमियम होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में सहायक होता है।

### रक्त प्रवाह को बढ़ाए

टमाटर में सेलेनियम होता है, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जिससे एनिमिया का खतरा कम हो जाता है।



गुड़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपको घर की रसोई में ही बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसका सेवन अगर अलग-अलग रूपों से किया जाए तो यह हमारी सेहत को नीचे बताई जा रही बीमारियों की चपेट में आने से बचाए रख सकता है।

### गुड़ के फायदे


रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ करें गुड़ का सेवन, इन जानलेवा बीमारियों का खतरा हो जाएगा कमसेकम सेहतमंद बने रहने के लिए हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन नियमित रूप से भी करना चाहिए। खाने के बाद हमें अक्सर किसी भी पदार्थ को खाने की सलाह दी जाती है ताकि पाचन क्रिया में आसानी हो। इन खाद्य पदार्थों में गुड़ का भी नाम शामिल है जो आमतौर पर सभी घरों में बड़ी आसानी से मिल जाता है। विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाने में भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अलग-अलग रूप से सेवन करें तो यह हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस लेख में आपको गुड़ का सेवन करने से होने वाले विशेष फायदों के बारे में बताया जाएगा ताकि आप भी अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करके सेहतमंद बने रहें।

### वजन घटाने में

वजन घटाने के लिए मुख्य रूप से गुड़ के पानी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। कई मशहूर डायटिशियन भी सुझाव देते हैं कि जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, उन्हें नियमित रूप से गुड़ के पानी का सेवन करना चाहिए। इससे वजन को कम करने में प्रभावी रूप से असर दिखाई पड़ने लगता है।

### पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए

पाचन क्रिया को अगर थोड़ी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो यह में कई प्रकार



### दाल के पोषक तत्व

- दालों में सबसे पौष्टिक दाल, मूंग की होती है, इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की मात्रा भी मूंग में बहुत होती है। इसके सेवन से शरीर में कैलोरी भी बहुत नहीं बढ़ती है। अगर अंकुरित मूंग दाल खाएं तो शरीर में कुल 30 कैलोरी और 1 ग्राम फेट ही पहुंचता है।
- अंकुरित मूंग दाल में मैग्नीशियम, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी -6, नियासिन, थायमिन और प्रोटीन होता है।
- मूंग की दाल के स्प्राउट में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है इस वजह से मधुमेह रोगी इसे खा सकते हैं।
- मूंग की दाल के स्प्राउट में ऑलियोसाच्याराइड्स होता है जो पॉलीफिनाल्स से आता है। ये दोनों की घटक, गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रबल करते हैं। कैंसर के रोगी भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं।
- मूंग की दाल में ऐसे गूण होते हैं, जो शरीर की

## रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ करें गुड़ का सेवन

की बीमारियों की चपेट में ला सकता है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से पाचन क्रिया को सुचारु रूप से चलाए रखने के लिए शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। गुड़ के जरिए इस पोषक तत्वों की पूर्ति करके पाचन क्रिया को मेटेन रखा जा सकता है।

### खून की कमी होने से बचाए

खून की कमी सबसे ज्यादा गर्भावस्था में महिलाओं को परेशान कर सकती है और यह समस्या गर्भवस्था शिशु के लिए मुसीबत बन सकती है। चूंकि गुड़ में आयरन की काफी मात्रा होती है इसलिए महिलाओं के लिए इसका सेवन खून की कमी होने से रोकेंगे और जल्दा-बल्दा दोनों को स्वस्थ रखने में भी मददगार साबित होगा। हालांकि, पहली और दूसरी तिमाही में गुड़ का सेवन न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और यह बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

### रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने के लिए

रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) को मजबूत बनाकर आप कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों और कुछ जानलेवा बीमारियों के खतरों से भी बचे रह सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, गुड़ में मौजूद जिंक और विटामिन-सी की मात्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी रूप से मददगार साबित होती है। इसलिए जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर है, वे गुड़ का सेवन कर सकते हैं।

### ब्लड प्रेशर को कम करे

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत होती है। इसे

हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि गुड़ में मौजूद पोटेशियम की मात्रा आपको हाइपरटेंशन की समस्या से बचा सकती है। इतना ही नहीं, गुड़ में मौजूद पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने के साथ-साथ स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन की समस्या से भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है।

### लिवर को साफ रखने के लिए

लिवर की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां अल्सर और इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकती है। लिवर में अगर लंबे समय तक संक्रमण बना रहता है तो यह कैंसर का रूप ले सकता है। जबकि गुड़ में मौजूद डिऑक्सिजन टॉक्सिक पदार्थों को लिवर से बाहर निकालने का कार्य कर सकता है। इसके लिए आप चाहे तो गुड़ को गर्म पानी में उबालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।

## गुड़ खाने के नुकसान क्या हैं?

गुड़ खाने के फायदे के साथ-साथ आपको इससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है ताकि आप अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकें। अधिक मात्रा में किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करना नुकसानदायक होता है और गुड़ के साथ भी यही बात लागू होती है। अधिक मात्रा में यदि आप गुड़ का सेवन करते हैं तो यह शुगर, मोटापा और टाइप टू डायबिटीज का खतरा भी बढ़ा सकता है।

दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। वैसे तो हर दाल पोषक तत्वों से भरपूर होती है लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोटीन की मात्रा से के साथ कुछ परेशानियों को जड़ से खत्म करना है, तो आप अपनी डाइट में मूंग दाल जरूर जोड़ें। किसी भी रूप में मूंग दाल के सेवन के कई फायदे हैं।

## पोषण के मामले में सभी दालों पर भारी है मूंग दाल

प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं और उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसमें एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लामेट्री गुण होते हैं, जो शरीर की इम्युनिटी बढ़ाते हैं।

मूंग की दाल के स्प्राउट में शरीर के टॉक्सिक को निकालने के गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर में विषाक्त तत्वों में कमी आती है।

### ऐसे बनाएं हेल्दी मूंग दाल का चीला

रात को मूंग दाल को एक पैन में पानी डालकर रख दें। इसके बाद सुबह इसे छान कर ग्राइंडर में पीस लें। इसके बाद इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब तवा को गर्म करें। गर्म हो जाने में थोड़ा सा तेल डालकर मूंग दाल के पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से फैला लें। इसके बाद इसमें सभी सब्जियां और पनीर डाल दें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा घी डालकर दूसरी तरफ भी सेंक लें। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लें। आपका मूंग दाल का चीला बनकर तैयार है। इसे हरी या लाल चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें।



## नारियल पानी के सेवन से मिलते हैं बेहतरीन सेहत लाभ

नारियल पानी अधिकतर लोगों को पसंद आता है। लेकिन ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है। दरअसल, इसमें शरीर के लिए फायदेमंद कई तरह के विटामिन्स, मिनेरल्स और इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। जो आपको कई सेहत लाभ देते हैं। तो आइए जानते हैं नारियल पानी से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

- नारियल पानी का सेवन लिवर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। नारियल पानी में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। जो लिवर में कई तरह के विषाक्त पदार्थों की गतिविधि को कम करते हैं। इसका सेवन करना लिवर के लिए काफी लाभकारी होता है।
- पेट के लिए नारियल पानी बेहद फायदेमंद है। इसके सेवन से पेट दर्द, एसिडिटी, अल्सर में थोड़ा-थोड़ा नारियल पानी पीने से आराम मिलता है।
- ऊर्जावान रहने के लिए नारियल पानी काफी अच्छा होता है। इसके सेवन से कमजोरी, थकान, चक्कर आने जैसी समस्याओं में इसको पीने से तत्काल लाभ प्राप्त होता है।
- नारियल पानी हृदय रोग का जोखिम कम करने का काम करता है। इसके सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
- वजन कम करना चाहते हैं, तो नारियल पानी आपकी बहुत मदद करेगा। यह कैलोरी में कम और पचाने में आसान होता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो वजन और मोटापा कम करने में मददगार हैं।
- त्वचा में ग्लो और रिफ्रेशिंग बिलकुल विलन रखना चाहते हैं तो नारियल पानी आपको नियमित रूप से पीना चाहिए। यदि चेहरे पर मुँहासे और दाग धब्बों की समस्या बढ़ गई है, तो नारियल पानी का सेवन आपको सारी समस्या को दूर करेगा।



## इस आयुर्वेदिक चाय से मजबूत होगा इम्यून सिस्टम

अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई है और आप बार-बार सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार से पीड़ित हो रहे हैं तो आपको जरूरत है इस खास आयुर्वेदिक चाय की। तुलसी और अन्य मसालों से बनी ये चाय तेजी से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी।

### चाय बनाने की सही विधि

सामग्री : तुलसी के सुखए हुए पत्ते (जिन्हें छाया में रखकर सुखाया गया हो) 500 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, तेजपान 100 ग्राम, ब्राह्मी बूटी 100 ग्राम, बनफशा 25 ग्राम, सोंफ 250 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 150 ग्राम, लाल चन्दन 250 ग्राम और काली मिर्च 25 ग्राम। विधि : सब पदार्थों को एक-एक करके इमाम दस्त (खल बते) में डालें और मोटा-मोटा कूटकर सबको मिलाकर किसी बरनी में भरकर रख लें। बस, तुलसी की चाय तैयार है। दो कप चाय के लिए यह 'तुलसी चाय' का मिश्रण (चूण) आधा छोटा चम्मच भर लेना काफी है। दो कप पानी एक तपेली में डालकर गरम होने के लिए आग पर रख दें। जब पानी उबलने लगे तब तपेली नीचे उतार कर आधा छोटा चम्मच मिश्रण डालकर फौरन ढक्कन से ढक दें। थोड़ी देर तक उबलने दें फिर छानकर कप में डाल लें। इस चाय में दूध नहीं डाला जाता। मीठा करना चाहें तो उबलने के लिए आग पर तपेली रखते समय ही उचित मात्रा में शकर डाल दें और गरम होने के लिए रख दें।



## दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2026 तक पूरा बनकर हो जाएगा तैयार: हर्ष मल्होत्रा



नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) पूरी तरह से साल 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शुक्रवार को परिवहन भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यह विलंब कुछ तकनीकी अड़चनों के आ जाने की वजह से हो रहा है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य जनवरी 2023 तक किया गया था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। देशी होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि काम चल रहा है और यह जल्दी पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के लिए किसानों तथा अन्य लोगों से जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, जिसमें कई बार तकनीकी और व्यावहारिक अड़चन आ जाते हैं। इसके कारण इस तरह की लम्बी दूरी की सड़कों का निर्माण समय पर पूरा करने में विलंब हो जाता है। इस प्रक्रिया में कई राज्य सरकारें शामिल हैं और भूमि अधिग्रहण राज्य का मामला है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस पर बोले

## सुरक्षा, आतंक और नक्सलवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका

कोलकाता ■ एजेसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रानीझांग में सिलीगुड़ी फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के 61वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने एसएसबी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह बल नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएसबी ने न केवल सीमाओं को सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि विहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवाद के खतरों को भी कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत की 2450 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल द्वारा की जाती है। इन जवानों के होने से कोई चिंता नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सिलीगुड़ी गलियारे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एसएसबी की सतर्कता ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। उन्होंने बल के नक्सलवाद विरोधी अभियानों की सराहना और कहा कि एसएसबी ने अनेक गतिविधियों को रोकने और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का अनुकरणीय काम किया है। संस्कृति और विरासत को जोड़ने की पहल-शाह ने एसएसबी की उस पहल की भी प्रशंसा की, जिसमें सीमावर्ती गांवों की संस्कृति, भाषा और विरासत को देश की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह



### राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तीखा हमला, कहां-कांग्रेस में अलगाव के लिए जिम्मेदार

कोलकाता। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस से बढ़ते टकराव के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के व्यवहार के चलते ममता बनर्जी, शरद पवार, उदय ठाकरे जैसे नेता कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। यह बयान प्रहलाद जोशी ने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री सोलर घर योजना की समीक्षा बैठक के दौरान शुक्रवार को दिया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार कांग्रेस में अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी, शरद पवार, अभिषेक बनर्जी और उदय ठाकरे जैसे नेता कांग्रेस से दूर जा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण राहुल गांधी का नेतृत्व है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपा जाए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का दिन बताया और कहा कि एसएसबी ने अनेक गतिविधियों को रोकने और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का अनुकरणीय काम किया है।

संस्कृति और विरासत को जोड़ने की पहल-शाह ने एसएसबी की उस पहल की भी प्रशंसा की, जिसमें सीमावर्ती गांवों की संस्कृति, भाषा और विरासत को देश की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह

### अनशन पर बैठे किसान नेता को लेकर आप, कांग्रेस ने जताई चिंता

नई दिल्ली। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी और किसानों की कर्ज माफ़ी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खिगड़ने पर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि जायज मांगों के लिए किसानों का बार-बार अनशन और प्रदर्शन के लिए मजबूर होना दुर्भाग्यपूर्ण है। 700 से ज्यादा किसानों की शहदत के बावजूद भी सरकार निर्दयी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुई भाजपा सरकार को एक बार फिर किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। किसान नेता जगजीत सिंह पिछले 25 दिनों से पंजाब और हरियाणा के खेती बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मिलने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को हटवर्गिता छोड़नी चाहिए और इंसांनियत और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी संसद भवन परिसर में जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में प्रदर्शन किया।

प्रयास सीमावर्ती समुदायों और राष्ट्र के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करता है। उन्होंने खेती है कि लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री का यह दूसरा बंगाल दौरा है, जिसमें उन्होंने एसएसबी के कार्यों की सराहना कर उनकी जिम्मेदारी और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा। अमित शाह गुरुवार रात को ही सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। उनके दौर के लेकर उत्तर बंगाल में सुरक्षा की व्यापक पैमाने पर व्यवस्था की गई है।

योगी ने जेवर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिफल

3100 से बढ़ाकर किया

4300 रुपये प्रति वर्गमीटर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए भूमि दे रहे किसानों की मनचाही मुद्राद पुरी कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर किसानों के साथ खुले संवाद के बीच मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के एवज में देय प्रतिफल को 3100 से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर तक करने की घोषणा की। इसके अलावा नियमानुसार ब्याज भी देय होगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिग्रहण से प्रभावित हर एक किसान परिवार के व्यवस्थापन, रोजगार और सेवायोजन के भी समुचित प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा को मनचाही मुद्राद बताते हुए सभी किसानों ने %जय श्रीराम% के नारे से मुख्यमंत्री का अभिवादन किया और कहा कि अब लखनऊ से सीधे अयोध्या धाम जाकर श्रीरामलला के दर्शन-पूजन करेंगे। विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री के हाथों से एशिया के इस सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के अंतिम फेज के भूमि प्रदाता किसानों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से संवाद किया। उनकी आशंकाओं, निजाराओं और मांग के बारे में बातचीत की। संवाद कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री ने सीईओ यांडा को मंच पर बुलाया और हर एक किसान से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण को शीघ्र प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

## रक्षा प्रणालियों में उभरती प्रौद्योगिकियों व एआई को उच्च प्राथमिकता दे रहा भारत: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि भारत उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को उच्च प्राथमिकता दे रहा है तथा भारतीय रक्षा प्रणालियों में उनका उपयोग कर रहा है ताकि दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके। राष्ट्रपति मुर्मू आज सिकंदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रपति निशान (प्रेसिडेंट कलर्स) अलंकरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस त्रि-सेवा प्रशिक्षण संस्थान को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह अवसर भविष्य के लिए हमारे सशस्त्र बलों के रणनीतिक नेताओं को विकसित करने में रक्षा प्रबंधन कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की बढ़ती हुई रक्षा प्रबंधन क्षमता कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी को मजबूत करने तथा रक्षा नियंत्रण बढ़ाने में मदद करेगी। इससे भारत को वैश्विक सुरक्षा मंचों पर सक्रिय रूप बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

### कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नर्मदापुरम

क्रमांक/स्टोर/शाखा/2024-25/10457 दिनांक 16/12/24

#### ई-निविदा आमंत्रण

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीमांक एवं बीमोंक संस्थाओं गिरामे मुख्यतः जिला चिकित्सालय, विदित अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं में जन सामान्य को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता प्राप्त उपलब्ध कराने के प्रयोजन से साक-सकई के लिए सकाई कर्मी के माध्यम से कार्य अनुभवी एवं प्रमाणित कर्मी/एजेसी/संस्थाओं के द्वारा किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका प्रप्र अंतर्गत (www.mptenders.gov.in) के माध्यम से राशि प्रति निविदा 1000/- रुपये जमा कर प्राप्त करें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय की भन्कर शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

पूराप क्रमांक 07574-250113	
ऑन लाईन निविदा क्र.- 10457	
निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि	24/12/2024 10:00 बजे से 14/01/2025 18:00 बजे तक
निविदा खुलने से पूर्व बैठक की तिथि	02/01/2025 12:00 बजे
	कार्यालयीन दिवस एवं समय में
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	03/01/2025 10:00 बजे से 14/01/2025 18:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि	16/01/2025 11:00 बजे
स्थान	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नर्मदापुरम
	डॉ. दिनेश दहेलवार
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नर्मदापुरम
	दूरभाष 07574-252464
जी20518/24	

### कार्यालय कलेक्टर नर्मदापुरम एवं पदेन उप सचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक/18240 स.प्र.क्र.-0005/अ-82/2021-22/जुझारपुर/ नर्मदापुरम दिनांक 13/12/2024

--I अतिरिक्त--

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 फं-30 सन् 2013) मुक्ति राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि सीधे ही नई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-जुझारपुर स्टेशन तक नई तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक उचित भूमि अधिग्रहण कृषकवार व रावे कर्मांगवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के हितों आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (फं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंतिम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	उत्तरा क्रमांक	भूमि का कुल देकैटर में	अंशित वाली भूमि का देकैटर में	अंशित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	विजय वल्लभ मुन्डराव	55/1	0.137	0.038	
2	पद्म कुमार वल्लभ मुन्डराव	58/2/1	0.236	0.081	
3	मुकुंद कुमार वल्लभ मुन्डराव	55/2	0.136	0.046	
4	दिलीप, सुनीलकुमार पुत्रमग भगवानदास	58/2/2	0.236	0.064	
5	सोहन पंथि नरेंद्र	55/3	0.136	0.042	
6	सोहन पंथि एरा कुमार	58/2/3	0.236	0.074	
7	विद्याकांत पंथि एराकुमार	54/1/1	0.300	0.111	
8	एस कुमार वल्लभ हीराचन्द	54/2	0.0445	0.040	
9	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/3	0.0445	0.0210	
10	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/2/1	0.0450	0.0160	
11	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/2	0.0440	0.0210	
12	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/2	0.0445	0.0210	
13	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/1	0.056	0.015	
14	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/2	0.056	0.016	
15	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/3	0.056	0.017	
16	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/4	0.055	0.019	
17	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/5	0.055	0.017	
18	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/6	0.055	0.012	
19	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/7	0.055	0.013	
20	रत्ना पंथि देवेंद्र	50/2/2	0.080	0.016	
21	रत्ना पंथि देवेंद्र	49/1	0.503	0.008	
22	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/2	0.514	0.012	
23	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/1/1	0.405	0.014	
24	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/1/2	0.202	0.008	
25	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/1/3	0.202	0.008	
26	रत्ना पंथि देवेंद्र	47/1/1/3	0.202	0.008	
27	रत्ना पंथि देवेंद्र	48/1/1/3	0.202	0.008	
28	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/2	0.331	0.014	
29	रत्ना पंथि देवेंद्र	47/2/1	0.331	0.018	
30	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/2/3	0.331	0.020	
31	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/2/4	0.330	0.022	
32	रत्ना पंथि देवेंद्र	47/2/4			
33	रत्ना पंथि देवेंद्र	48/3/4			
34	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/1	0.259	0.019	
35	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/2	0.258	0.005	
36	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/3	0.258	0.031	
37	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/4	0.258	0.028	
38	रत्ना पंथि देवेंद्र	44/1/1/1	0.056	0.025	
39	रत्ना पंथि देवेंद्र	45/1/1/1	0.056	0.025	
40	रत्ना पंथि देवेंद्र	44/1/1/2	0.055	0.025	
41	रत्ना पंथि देवेंद्र	45/1/1/2	0.055	0.025	
42	रत्ना पंथि देवेंद्र	44/1/1/3	0.055	0.025	
43	रत्ना पंथि देवेंद्र	45/1/1/3	0.055	0.025	
44	रत्ना पंथि देवेंद्र	80/2	0.016	0.011	
45	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/1	0.008	0.008	
46	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/2	0.008	0.008	
47	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/3/1	0.006	0.006	
48	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/3/2	0.006	0.006	
49	रत्ना पंथि देवेंद्र	99	0.113	0.046	
50	रत्ना पंथि देवेंद्र	101	0.093	0.073	
51	रत्ना पंथि देवेंद्र	—	6.750	1.185	

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	उत्तरा क्रमांक	भूमि का कुल देकैटर में	अंशित वाली भूमि का देकैटर में	अंशित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	विजय वल्लभ मुन्डराव	55/1	0.137	0.038	
2	पद्म कुमार वल्लभ मुन्डराव	58/2/1	0.236	0.081	
3	मुकुंद कुमार वल्लभ मुन्डराव	55/2	0.136	0.046	
4	दिलीप, सुनीलकुमार पुत्रमग भगवानदास	58/2/2	0.236	0.064	
5	सोहन पंथि नरेंद्र	55/3	0.136	0.042	
6	सोहन पंथि एरा कुमार	58/2/3	0.236	0.074	
7	विद्याकांत पंथि एराकुमार	54/1/1	0.300	0.111	
8	एस कुमार वल्लभ हीराचन्द	54/2	0.0445	0.040	
9	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/3	0.0445	0.0210	
10	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/2/1	0.0450	0.0160	
11	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/2	0.0440	0.0210	
12	रत्ना पंथि देवेंद्र	54/1/1/2	0.0445	0.0210	
13	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/1	0.056	0.015	
14	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/2	0.056	0.016	
15	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/3	0.056	0.017	
16	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/4	0.055	0.019	
17	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/5	0.055	0.017	
18	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/6	0.055	0.012	
19	रत्ना पंथि देवेंद्र	53/7	0.055	0.013	
20	रत्ना पंथि देवेंद्र	50/2/2	0.080	0.016	
21	रत्ना पंथि देवेंद्र	49/1	0.503	0.008	
22	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/2	0.514	0.012	
23	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/1/1	0.405	0.014	
24	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/1/2	0.202	0.008	
25	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/1/3	0.202	0.008	
26	रत्ना पंथि देवेंद्र	47/1/1/3	0.202	0.008	
27	रत्ना पंथि देवेंद्र	48/1/1/3	0.202	0.008	
28	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/1/2	0.331	0.014	
29	रत्ना पंथि देवेंद्र	47/2/1	0.331	0.018	
30	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/2/3	0.331	0.020	
31	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/2/4	0.330	0.022	
32	रत्ना पंथि देवेंद्र	47/2/4			
33	रत्ना पंथि देवेंद्र	48/3/4			
34	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/1	0.259	0.019	
35	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/2	0.258	0.005	
36	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/3	0.258	0.031	
37	रत्ना पंथि देवेंद्र	46/3/1/4	0.258	0.028	
38	रत्ना पंथि देवेंद्र	44/1/1/1	0.056	0.025	
39	रत्ना पंथि देवेंद्र	45/1/1/1	0.056	0.025	
40	रत्ना पंथि देवेंद्र	44/1/1/2	0.055	0.025	
41	रत्ना पंथि देवेंद्र	45/1/1/2	0.055	0.025	
42	रत्ना पंथि देवेंद्र	44/1/1/3	0.055	0.025	
43	रत्ना पंथि देवेंद्र	45/1/1/3	0.055	0.025	
44	रत्ना पंथि देवेंद्र	80/2	0.016	0.011	
45	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/1	0.008	0.008	
46	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/2	0.008	0.008	
47	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/3/1	0.006	0.006	
48	रत्ना पंथि देवेंद्र	100/3/2	0.006	0.006	
49	रत्ना पंथि देवेंद्र	99	0.113	0.046	
50	रत्ना पंथि देवेंद्र	101	0.093	0.073	
51	रत्ना पंथि देवेंद्र	—	6.750	1.185	

(भूमि का बयान (स्नान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सुधी सोनिया मीना)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जी20510/24

## यूक्रेनी ड्रेनों का पता लगाने उत्तर कोरिया सेना ने बनाई निगरानी चौकियां

सोला। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रेनों का पता लगाने निगरानी चौकियां स्थापित की हैं। मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने जानकारी दी कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) के बयान में कहा गया है, गंभीर नुकसान झेलने के बाद, उत्तर कोरिया की इकाइयां ने यूक्रेन के सुरक्षा और रक्षा बलों के ड्रेन का पता लगाने के लिए अतिरिक्त निगरानी चौकियां स्थापित की हैं। परिचयी सीमावर्ती क्षेत्र कुर्सक में रूस अब भी उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है

## नर्मदापुरम में जिला-पंचायत अध्यक्ष, सदस्यों ने सामान्य-सम्मेलन का किया बहिष्कार- बोले- अधिकारियों की मनमानी से क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे प्रभावित

नर्मदापुरम ■ अमृत दर्शन

नर्मदापुरम में जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शुरुवात को आयोजित सामान्य सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। बैठक में विभागों के कुछ अधिकारियों के नहीं आने और अधिकारियों की मनमानी से परेशान होकर जिन सदस्यों ने बहिष्कार किया। दोपहर दो बजे अध्यक्ष राधा गौर, उपाध्यक्ष बुद्धकुंजर बैकर समेत उपस्थित सदस्य सभाकक्ष से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, अधिकारियों पर मनमानी के कारण क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ढाई साल बताने के बाद भी जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर पाए हैं।

जिन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आदेशों की भी अधिकारी अनदेखी करते हैं। जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं उद्घाटन होते हैं, उनका आमंत्रण तक नहीं दिया जाता, यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। बहिष्कार के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और विधायक, सांसद प्रतिनिधि सभी सभाकक्ष से निकलकर अध्यक्ष के कक्ष में आकर बैठ गए। जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी योगेंद्र राय



**बोले- हम सब एक, किसी भी प्रकार का हमें बैर नहीं**

अध्यक्ष राधा सुधीर गौर ने कहा मैं अकेली कुछ नहीं। सभी सदस्यों के साथ हूँ। सदस्य हाकम सिंह गुर्जर ने कहा हम सभी एक, हम किसी भी प्रकार का बैर नहीं है। हमारे संगठन ने आज सम्मेलन करने का बहिष्कार करने का निर्णय किया है, इसलिए अब बैठक में नहीं जाएंगे।

**ढाई साल बाद भी योजना मंडल का नहीं हुआ गठन**

जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह गुर्जर, अजीत मंडलोई ने बताया मद्रा में नर्मदापुरम एक ऐसा जिला है, जहाँ योजना मंडल का गठन आज तक नहीं हुआ है, जबकि जिला पंचायत सदस्यों को निर्वाचित हुए ढाई साल से ज्यादा का वकत हो चुका है।

**डेढ़ घंटे बैठे रहे अधिकारी, बिना बैठक कर निकले**

सामान्य सम्मेलन में कृषि विभाग के उप संचालक जेआर हेड्डा, आरईएस के ईई केएस मिर्छा, जिला आपूर्ति अधिकारी, शिक्षा, खनिज विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी व विभाग प्रतिनिधि पहुंचे। वन विभाग से कोई नहीं आया था। जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत भी बाहर होने से बैठक में मौजूद नहीं हुए। करीब डेढ़ घंटे तक उपस्थित अधिकारी सभाकक्ष में बैठे रहे। बाद में उठकर सभी चले गए।

अध्यक्ष और सदस्यों को मनाने पहुंचे। उन्होंने कहा बहिष्कार करना समस्या का हल नहीं है।

आप चलें, सभी बैठक में मिलकर बात करते हैं, लेकिन सदस्य मानने को तैयार नहीं हुए।

## संयुक्त संचालक शिक्षा ने किया स्कूलों का निरीक्षण

अतिथि शिक्षक पाया गया अनुपस्थित

सिवनी मालवा ■ किलस

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं आगामी माह फरवरी एवं मार्च में आयोजित होगी तथा कक्षा नवमी एवं 11वीं की परीक्षा फरवरी में होगी संभाग का बोर्ड परीक्षा परिणाम पिछले वर्षों के अपेक्षा अधिक रहे इसी के उद्देश्य से संभाग एवं जिले के अधिकारियों

द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार श्रीमती भावना दुबे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदा पुरम संभाग द्वारा विकासखंड सिवनी मालवा के शासकीय नेहरू स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बानापुर शासकीय हाई स्कूल नाहरकोला



कला तथा शासकीय नवीन हाई स्कूल इकलानी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया शासकीय नवीन हाई स्कूल इकलानी में संस्था में कार्यरत नियमित शिक्षक चार

उपस्थित पाए गए अतिथि शिक्षक सुनील दुबे निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए छात्र-छात्राओं को उपस्थित बहाने हेतु पालकों से संपर्क किया जाए एवं परीक्षा

परिणाम बहाने हेतु प्रतिदिन गृह कार्य एवं इसका परीक्षण भी किया जाए शासकीय प्राचार्य मनिष दुबे मेडिकल अवकाश पर पाए गए संयुक्त संचालक शिक्षा श्रीमती दुबे द्वारा सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया की अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है सभी विषयों का मूल्यांकन करके उत्तर पुस्तिकाएं छात्र-छात्राओं को अवलोकन के लिए बताई जाए 30 दिसंबर तक मिमर्स पोर्टल पर परीक्षा परिणाम दर्ज किया जाए।

## मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत भाड़भुड में शिविर आयोजित योजनाओं में लाभ से कोई भी पात्र त्यवित न छूटे- जेपी यादव



नर्मदापुरम ■ अमृत दर्शन

संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जेपी यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत नया भाड़भुड शिविर में उपस्थित होकर लोगों को समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया की पानी की समस्या है। हैंडपम्प से जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पाइप लाइन काफी लम्बी होने से मोटर लोड सहन नहीं कर पाती है और बार बार जल जाती है। ओवर हेड टैंक बनाये जाने की मांग की है। पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

संभागीय उपायुक्त ने उपस्थित विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया। प्रत्येक हितग्राही मुलक योजनाओं का सर्वे करें ताकी कोई भी पात्र व्यथित किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस दौरान विकास खंड शिक्षा अधिकारी

आशा मोर्य, सरपंच श्रीमती चूनिबाई मरकाम सचिव लखनलाल यादव, उपसरपंच, पंचगण ग्रामीण तथा विभिन्न विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। यादव ने माध्यमिक शाला भाड़ भुड तथा नया खाकर के प्राथमिक शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। दोनों विद्यालय में समस्त शिक्षक उपस्थित पाए गए। स्कूल में साफ सफाई भी ठीक पाई गई। भाड़भुड में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पालकों से घर जाकर संपर्क कर प्रेरित करने के निर्देश दिए। खाकरपुर में शिक्षा का स्तर अच्छा पाया गया। बच्चों से पहाड़े सुने, किताब पढ़वाई तथा गणित के सवाल हल कराये। उन्होंने बच्चों से कविताएं भी सुनी और बातें की।

## मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन

सिवनी-मालवा। ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतवाडा में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन ग्राम के पंचायत भवन में किया गया। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर सरपंच श्रीमती फूलवती गौर द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। जिसमें प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए शिविर में रामकुमार पाठक पंचायत समन्वयक अधिकारी, एम.के.दुबे पशु चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी हरीश देशमुख पटवारी सुरेश कुशराम पंचायत सचिव सचिन उडके ग्राम रोजगार सहायक रूपेश राजपूत सुभाष झरिया भाजपा मंडल महामंत्री, अना मोर्चा, तानसेन मेहरा ग्राम कोटवार, शंकर लाल गौर एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता निर्मला राजपूत और सहायिका सुषमा राजपूत भी मौजूद रही।

## इटारसी एसडीएम ने किया रैन बसेरा का निरीक्षण

इटारसी। इटारसी में रेलवे स्टेशन के सामने बने नगरपालिका के रैन बसेरा का गुरुवार रात 10 बजे एसडीएम प्रतीक गव ने निरीक्षण किया। यहां रके-महिला और पुरुष अलग-अलग कमरों का जायजा लिया। यहां लोगों का बत बत व्यवस्थाओं के बारे में बात की। एसडीएम ने रैन बसेरा का सुपर वाइजर नितिन मिश्रा से यहां की व्यवस्था के बारे में पूछताछ की।

## विधानसभा में उठा नर्मदापुरम की खराब सड़कों का मुद्दा खराब गुणवत्ता के कारण आवागमन लायक नहीं सड़क, ओवरलोड डंपर भी वजह

नर्मदापुरम ■ अमृत दर्शन

होशंगाबाद (नर्मदापुरम) विधानसभा क्षेत्र में बनी खराब सड़कों का मुद्दा मद्रा विधानसभा में उठाया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने विधानसभा में नियम 267-के अधीन क्षेत्र में खराब गुणवत्ता और मंथर गति से बनाई सड़कों का विषय उठाते हुए कहा कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़कों की गुणवत्ता खराब है। निर्माण कार्य इतना खराब रहा कि बने के कुछ महीने बाद ही सड़क कई जगह से उखड़ गई और गड्ढे हो गए। हालत ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी उक्त सड़कों के खराब गुणवत्ता के बनाए जाने के कारण उक्त सड़कें अनेक स्थानों पर आवागमन के योग्य नहीं हैं। शिकायत के बाद भी उक्त सड़कों की जांच नहीं की जा रही है।



विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि नर्मदापुरम जिले के नर्मदापुरम विधान सभा क्षेत्र में आने वाली (1) पांजरा से रैसलपुर, (2) रैसलपुर से नियाया, (3) बरंडुआ-रंढाल, (4) डोंगरवाड़ा-हासलपुर सड़क का निर्माण कार्य अत्यंत खराब गुणवत्ता एवं बेकार रहा है। इसके साथ ही निर्माणाधीन मालाखेड़ी-रायपुर एवं रैसलपुर मार्ग का कार्य मंथरगति से चल रहा है, जिसके कारण उक्त मार्ग निर्धारित समयवधि में पूरा नहीं हो सकेगे। विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों की खराब गुणवत्ता एवं मंथर गति से

## सड़क 6 महीने के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गई

विधायक ने जिन सड़कों का मुद्दा उठाया। उनमें पांजरा से रैसलपुर सड़क डेढ़ दो साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग ने बनाई है। मेहराबाद की रेत खदानों से निकलने वाले कई ओवरलोड डंपर इसी रास्ते से निकलकर फोरलेन पर जाते रहे। जिस वजह से भी ये सड़क 6 महीने के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गई। आरटीओ, खनिज और यातायात द्वारा ओवरलोड डंपरों पर एक्शन न लिये जाने की वजह से ही अन्य सड़कों की भी हालत खस्ताहाल हो रही है। पवारखेड़ा बायपास की सड़क भी बारिश से पहले इसी वजह से खराब हो गई थी। जिसका सुधार कार्य लोकनिर्माण विभाग ने डेढ़ महीने पहले ही कराया है। बनाई जाने वाली सड़कों पर अधिकारियों का निरीक्षण न होने के कारण शासकीय धन का अपव्यय हो रहा है।

11 दिसम्बर - 26 दिसम्बर 2024

# जनकल्याण पर्व

1 वर्ष

**मोहन यादव सरकार**  
काम लगातार-फैसले असरदार

## डोंगला वेधशाला का भ्रमण

अपराह्न : 3:00 बजे

# आईटी पार्क, उज्जैन

भूमिपूजन

## ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 'लोगो' एवं थीम का अनावरण

अपराह्न : 4:30 बजे

मुख्यमंत्री

# डॉ.मोहन यादव

द्वारा

## 21 दिसम्बर, 2024, उज्जैन

D11130/24

- आईटी पार्क से औद्योगिक विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ नवाचार-संचालित विकास को मिलेगा बढ़ावा
- आईटी पार्क का डिजाइन 'अनंत' की अवधारणा पर आधारित है जो भगवान महाकाल को दर्शाता है
- छात्रों को मिलेगी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- उज्जैन में आईटी पार्क की स्थापना से होगा समग्र शहरी और आर्थिक विकास
- आईटी कंपनियों को कम लागत में मिलेगा अधिक लाभ
- टैक कंपनियों और स्टार्ट-अप को एडवांस सुविधाएं

**सीधा प्रसारण**

Webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapadesh @JansamparkMP

@Cmmadhyapadesh @JansamparkMP

JansamparkMP